



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 माघ 1931 (श0)
(सं0 पटना 69) पटना, बुधवार, 27 जनवरी 2010

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

22 दिसम्बर 2009

सं0 22/नि0सि0(पू0) 1-05/2004/1572—मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियाँ परिक्षेत्राधीन नहरों के टूटान एवं नहर संचालन में लापरवाही एवं पर्यवेक्षण में कमी आदि कतिपय आरोपों के लिए श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता सिंचाई प्रमण्डल, अररिया के विरुद्ध नियम-55'ए' के तहत कार्रवाई करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0 746, दिनांक 3 सितम्बर 2008 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया:—

(1) "निन्दन" वर्ष 2004-05

उक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्री सिंह द्वारा एक अभ्यावेदन दिया गया। जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री सिंह को विभागीय अधिसूचना सं0 746, दिनांक 3 सितम्बर 2008 द्वारा संसूचित दण्ड (निन्दन वर्ष 2004-05) को विलोपित करने का निर्णय लिया गया है।

सरकार का उक्त निर्णय श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, अररिया सम्प्रति सेवानिवृत्त को संसूचित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण कुमार प्रसाद,
सरकार के उप—सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 69-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>